



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 336]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 6, 2018/भाद्र 15, 1940

No. 336]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 6, 2018/BHADRA 15, 1940

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स संस्थान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2018

सं. 54-ईएल(1)/2/2018.—चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स विनियम, 1988 के विनियम 134 के उपविनियम (10) के साथ पठित चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स अधिनियम, 1949 के अधीन विनिर्दिष्ट चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स (परिषद् का निर्वाचन) नियम, 2006 के नियम 4 के उपनियम (2) के अनुसरण में भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स संस्थान, अपनी परिषद् और प्रादेशिक परिषदों के सदस्यों के आगामी निर्वाचनों के संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण तारीखें अधिसूचित करता है :—

क्रम सं.	निर्वाचन के प्रक्रम	नियत तारीखें
1.	नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तारीख और समय	27.09.2018 - 6.00 अप.
2.	(i) नामांकनों की संवीक्षा की तारीख(खें) और स्थान ; और (ii) नामांकनों की संवीक्षा के लिए अंतिम तारीख	1.10.2018 से 9.10.2018 (नई दिल्ली)
3.	नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख और समय	19.10.2018 - 6.00 अप.
4.	निम्नलिखित स्थानों पर मतदान की तारीख और तारीखें - (i) अहमदाबाद, बंगलूरु, चेन्नई, दिल्ली/नई दिल्ली, गुडगांव, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कोलकाता, मुंबई, पुणे, सूरत और ठाणे (ii) अन्य नगर/शहर	7 और 8.12.2018 8.12.2018
5.	चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स (परिषद् का निर्वाचन) नियम, 2006 के नियम 28 के अधीन डाक द्वारा मतदान करने की अनुमति हेतु आवेदन प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख	05.10.2018
6.	डाक द्वारा मतपत्र वापस प्राप्त करने की अंतिम तारीख एवं समय	17.12.2018 - 5.00 अप.

7.	मतगणना की तारीखें	19.12.2018 से 07.01.2019
8.	परिणामों की घोषणा की तारीख	09.01.2019* (अंततम)

* किसी निर्वाचन विवाद संबंधी आवेदन को फाइल करने के लिए परिसीमा अवधि का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए वह तारीख गणना में ली जाएगी, जिसको वस्तुतः निर्वाचन के परिणामों की घोषणा को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है।

वी. सागर, रिटर्निंग अधिकारी और सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./212/18]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2018

(Chartered Accountants)

No. 54-EL(1)/2018.—In pursuance of sub-rule (2) of rule 4 of the Chartered Accountants (Election to the Council) Rules, 2006 specified under the Chartered Accountants Act, 1949 read with sub-regulation (10) of regulation 134 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the following important dates relating to the next elections of members to its Council and Regional Councils:-

Sl. No.	Stages of Election	Dates Fixed
1.	The last date and time for receipt of nominations	27.9.2018 – 6.00 P.M.
2.	(i) Date(s) and place of scrutiny of Nominations; and (ii) Last date for scrutiny of nominations	1.10.2018 to 9.10.2018 (New Delhi)
3.	The last date and time for withdrawal of nominations	19.10.2018 – 6.00 P.M.
4.	The date or dates of polling - (i) Ahmedabad, Bengaluru, Chennai, Delhi/New Delhi, Gurgaon, Hyderabad, Indore, Jaipur, Kolkata, Mumbai, Pune, Surat and Thane (ii) Other cities/towns	7 & 8.12.2018 8.12.2018
5.	The last date for receipt of applications for permission to vote by post under rule 28 of the Chartered Accountants (Election to the Council) Rules, 2006	5.10.2018
6.	The last date and time for receipt by post of ballot papers back	17.12.2018 – 5.00 P.M.
7.	Dates of Counting of Votes	19.12.2018 to 7.1.2019
8.	The date of declaration of results	9.1.2019* (latest)

* The date to be reckoned for the purpose of determining the limitation period for filing election dispute application shall be the date on which the declaration of results is eventually notified in the Gazette of India.

V SAGAR, Returning Officer and Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./212/18]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2018

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं. 54-ईएल(1)/3/2018.—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अधीन विनिर्दिष्ट चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (परिषद् का निर्वाचन) नियम, 2006 के नियम 9 के उपनियम (1) के साथ पठित उसकी अनुसूची 4 के अनुसरण में भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान यह अधिसूचित करता है कि ऐसे अभ्यर्थियों के, जो दिसंबर, 2018 में आयोजित होने वाली उसकी चौबीसवीं परिषद् के निर्वाचनों में खड़े होने के इच्छुक हैं, नामांकन पत्रों को उक्त नियमों के नियम 9 में विनिर्दिष्ट रीति (जिसके ब्यौरे नामांकन प्ररूप में भी मुद्रित पाए जाएंगे) में श्री वी. सागर, रिटर्निंग अधिकारी और परिषद् के सचिव (नाम से) को संबोधित करते हुए, इस प्रकार आईसीएआई भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली - 110002 को अग्रेषित किया जा सकेगा कि वो **27.09.2018 को सायं 6.00 बजे** तक उनके पास पहुंच जाएं।

नामांकन पत्र, संस्थान की परिषद् द्वारा उक्त नियमों के उपनियम (3) के अधीन अनुमोदित प्ररूप में और नियम 9 में विनिर्दिष्ट रीति में होंगे। नामांकन पत्र भरते समय, अभ्यर्थी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (परिषद् का निर्वाचन) नियम, 2006 के उपबंधों, विशेषकर उक्त नियमों के नियम 9, 10, 11 और 12 में अंतर्विष्ट उपबंधों को ध्यान में रखेगा। नामांकन प्ररूपों को 6 सितंबर, 2018 से संस्थान के आईसीएआई भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली - 110002 में स्थित कार्यालय और साथ ही मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और कानपुर स्थित उसके प्रादेशिक कार्यालयों और अहमदाबाद, बंगलूरु, चंडीगढ़, एनकुलम (कोच्ची), हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, नागपुर, पुणे, सूरत, ठाणे और वदोदरा स्थित विकेन्द्रीकृत कार्यालयों से प्राप्त किया जा सकता है। **तथापि, रिटर्निंग अधिकारी और परिषद् के सचिव द्वारा नामांकन प्ररूप केवल नई दिल्ली स्थित उपरोक्त पते पर उक्त तारीख से स्वीकार किए जाएंगे।**

प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या को नीचे सारणी के स्तंभ (3) में, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के सामने दर्शित किया गया है :

क्रम सं.	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का नाम	निर्वाचित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	पश्चिमी भारत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य तथा दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र	11
2.	दक्षिणी भारत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाणा राज्य तथा लक्षद्वीप और पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र	6
3.	पूर्वी भारत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल राज्य तथा अंदमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र	3
4.	मध्य भारत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य	6
5.	उत्तरी भारत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़ एवं दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र	6

उक्त नियमों के नियम 10 और 11 के अधीन संदाय करने के लिए अपेक्षित निर्वाचन फीस और प्रतिभूति निक्षेप का संदाय सचिव, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के पक्ष में एक मांगदेय ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाएगा, जो नई दिल्ली में संदेय होगा।

वी. सागर, रिटर्निंग अधिकारी और सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./212/18]

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2018

(Chartered Accountants)

No. 54-EL(1)/3/2018.—In pursuance of sub-rule (1) of rule 9 of the Chartered Accountants (Election to the Council) Rules, 2006 specified under the Chartered Accountants Act, 1949 read with Schedule 4 thereto, the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify that nominations of candidates who desire to stand for election to its Twenty Fourth Council, to be held in December, 2018 should be forwarded in the manner specified in rule 9 of the said Rules (details of which will be found printed in the Nomination Form also) addressed to Shri V Sagar, Returning Officer and Secretary to the Council (by name), at ICAI Bhawan, Indraprastha Marg, New Delhi – 110 002 so as to reach him not later than **6.00 P.M. on 27.9.2018.**

The nomination shall be in the Form approved by the Council of the Institute under sub-rule (3) and in the manner specified in rule 9 of the said Rules. While filing the nominations, candidates should keep in mind the provisions of the Chartered Accountants (Election to the Council) Rules, 2006, particularly those contained in rules 9, 10, 11 and 12 of the said Rules. The nomination forms can be had from the Office of the Institute at ICAI Bhawan, Indraprastha Marg, New Delhi-110002 as well as from the Regional Offices at Mumbai, Chennai, Kolkata and Kanpur and Decentralised Offices at Ahmedabad, Bengaluru, Chandigarh, Ernakulam (Kochi), Hyderabad, Indore, Jaipur, Nagpur, Pune, Surat, Thane and Vadodara w.e.f. **6th September, 2018.** **The nomination forms will however be accepted by the Returning Officer and Secretary to the Council at the above address at New Delhi only, effective from the said date.**

The number of persons to be elected from each Regional Constituency is shown below in column (3) against the respective Constituency:

Sl. No.	Name of the Regional Constituency	No. of persons to be Elected
(1)	(2)	(3)
1.	Western India Regional Constituency The States of Goa, Gujarat and Maharashtra and the Union Territories of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu.	11
2.	Southern India Regional Constituency The States of Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Telangana and the Union Territories of Lakshadweep and Pondicherry.	6
3.	Eastern India Regional Constituency The States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Orissa, Sikkim, Tripura, West Bengal and the Union Territory of Andaman & Nicobar Islands.	3
4.	Central India Regional Constituency The States of Bihar, Chattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttarakhand and Uttar Pradesh.	6
5.	Northern India Regional Constituency The States of Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir and Punjab and the Union Territories of Chandigarh and Delhi.	6

The fee of election and security deposit required to be paid under rules 10 and 11 of the said Rules must be by way of demand draft drawn in favour of the Secretary, the Institute of Chartered Accountants of India, payable at New Delhi.

V. SAGAR, Returning Officer and Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./212/18]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2018

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं. 54-ईएल(1)/4/2018.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (परिषद् का निर्वाचन) नियम, 2006 के नियम 9 और उसकी अनुसूची 4 के साथ पठित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 134 के उपविनियम (5) और (6) के अनुसरण में, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान यह अधिसूचित करता है कि ऐसे अभ्यर्थियों के, जो दिसंबर, 2018 में आयोजित होने वाली उसकी तेईसवीं प्रादेशिक परिषदों के निर्वाचनों में खड़े होने के इच्छुक हैं, नामांकन पत्रों को उनमें विहित/विनिर्दिष्ट रीति (जिसके ब्यौरे नामांकन प्ररूप में भी मुद्रित पाए जाएंगे) में श्री वी. सागर, रिटर्निंग अधिकारी और परिषद् के सचिव (नाम से) को संबोधित करते हुए, इस प्रकार आईसीएआई भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली - 110002 को अग्रेषित किया जा सकेगा कि वो **27.09.2018 को सायं 6.00 बजे** तक उनके पास पहुंच जाएं।

नामांकन पत्र, परिषद् द्वारा अनुमोदित प्ररूप में होंगे। नामांकन पत्र फाइल करते समय, अभ्यर्थी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (परिषद् का निर्वाचन) नियम, 2006 के साथ पठित उक्त विनियमों के उपविनियम (6क), (7) और (7क) के उपबंधों, विशेषकर उक्त नियमों के नियम 9, 10, 11 और 12 में अंतर्विष्ट उपबंधों को ध्यान में रखेगा। नामांकन प्ररूपों को **6 सितंबर, 2018** से संस्थान के आईसीएआई भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली - 110002 में स्थित कार्यालय और साथ ही मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और कानपुर स्थित उसके प्रादेशिक कार्यालयों और अहमदाबाद, बंगलूरु, चंडीगढ़, एर्नाकुलम (कोच्ची), हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, नागपुर, पुणे, सूरत, ठाणे, और वदोदरा स्थित विकेन्द्रीकृत कार्यालयों से प्राप्त किया जा सकता है। **तथापि, रिटर्निंग अधिकारी और परिषद् के सचिव द्वारा नामांकन प्ररूप केवल नई दिल्ली स्थित उपरोक्त पते पर उक्त तारीख से स्वीकार किए जाएंगे।**

प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या को नीचे सारणी के स्तंभ (3) में, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के सामने दर्शित किया गया है :

क्रम सं.	प्रादेशिक परिषद् का नाम	निर्वाचित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	पश्चिमी भारत प्रादेशिक परिषद्	22
2.	दक्षिणी भारत प्रादेशिक परिषद्	12
3.	पूर्वी भारत प्रादेशिक परिषद्	6
4.	मध्य भारत प्रादेशिक परिषद्	11
5.	उत्तरी भारत प्रादेशिक परिषद्	13

उक्त नियमों के नियम 10 के साथ पठित उक्त विनियमों के विनियम 134 के अधीन संदाय करने के लिए अपेक्षित निर्वाचन फीस और प्रतिभूति निक्षेप का संदाय सचिव, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के पक्ष में एक मांगदेय ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाएगा, जो नई दिल्ली में संदेय होगा।

प्रादेशिक परिषदों के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के अध्याय 7 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अधीन विनिर्दिष्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (परिषद् का निर्वाचन) नियम, 2006 में यथा अंतर्विष्ट निर्वाचनों से संबंधित उपबंध, आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

वी. सागर, रिटर्निंग अधिकारी और सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./212/18]

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2018

(Chartered Accountants)

No. 54-EL(1)/4/2018.—In pursuance of sub-regulations (5) and (6) of regulation 134 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 read with rule 9 of the Chartered Accountants (Election to the Council) Rules, 2006 and Schedule 4 thereto, the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify that nominations of candidates who desire to stand for election to its Twenty Third Regional Councils, to be held in December, 2018 should be forwarded in the manner prescribed/specified therein (details of which will be found printed in the Nomination Form also) addressed to Shri V Sagar, Returning Officer and Secretary to the Council (by name) at ICAI Bhawan, Indraprastha Marg, New Delhi – 110 002 so as to reach him not later than **6.00 P.M. on 27.9.2018.**

The nomination shall be in the Form approved by the Council. While filing the nominations, candidates should keep in mind the provisions of sub-regulations (6A), (7) and (7A) of the said regulation read with the Chartered Accountants (Election to the Council) Rules, 2006, particularly those contained in rules 9, 10, 11 and 12 of the said Rules. The nomination forms can be had from the Office of the Institute at ICAI Bhawan, Indraprastha Marg, New Delhi as well as from the Regional Offices at Mumbai, Chennai, Kolkata and Kanpur and Decentralised Offices at Ahmedabad, Bengaluru, Chandigarh, Ernakulam (Kochi), Hyderabad, Indore, Jaipur, Nagpur, Pune, Surat, Thane and Vadodara w.e.f. **6th September, 2018. The nomination forms will however be accepted by the Returning Officer and Secretary to the Council at the above address at New Delhi only, effective from the said date.**

The number of persons to be elected to each Regional Council is shown below in column (3) against the respective Regional Council :

Sl. No.	Name of the Regional Council	No. of persons to be Elected
(1)	(2)	(3)
1.	Western India Regional Council	22
2.	Southern India Regional Council	12
3.	Eastern India Regional Council	6
4.	Central India Regional Council	11
5.	Northern India Regional Council	13

The fee of election and security deposit required to be paid under regulation 134 of the said Regulations read with rule 10 of the said Rules must be by way of a demand draft drawn in favour of the Secretary, the Institute of Chartered Accountants of India, payable at New Delhi.

For the purpose of elections to the Regional Councils, subject to the provisions contained in Chapter VII of the Chartered Accountants Regulations, 1988, the provisions relating to elections as contained in the Chartered Accountants (Election to the Council) Rules, 2006 specified under the Chartered Accountants Act, 1949, shall 'mutatis mutandis' apply.

V. SAGAR, Returning Officer and Secy.
[ADVT.-III/4/Ext./212/18]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2018

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं.54-ईएल(1)/5/2018.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अधीन विनिर्दिष्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (परिषद् का निर्वाचन) नियम, 2006 के नियम 10 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ने यह विनिश्चय किया है कि दिसंबर, 2018 में आयोजित किए जाने वाले उसकी चौबीसवीं परिषद् के निर्वाचनों के संबंध में निर्वाचन का कोई अभ्यर्थी अपनी उम्मीदवारी के लिए, फाइल किए जाने वाले नामांकनों की संख्या पर ध्यान न देते हुए कुल 25,000/- रुपए (पच्चीस हजार रुपए) के शुल्क का संदाय करेगा।

उक्त फीस का संदाय, सचिव, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के पक्ष में और नई दिल्ली में संदेय एक मानदेय ड्राफ्ट द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

वी. सागर, रिटर्निंग अधिकारी और सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./212/18]

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2018

(Chartered Accountants)

No. 54-EL(1)/5/2018.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 10 of the Chartered Accountants (Election to the Council) Rules, 2006 specified under the Chartered Accountants Act, 1949, the Institute of Chartered Accountants of India has decided that in respect of election to its Twenty Fourth Council to be held in December, 2018, a candidate for election shall pay in all a fee of Rs. 25,000/- (Rupees Twenty Five Thousand only) for his candidature, irrespective of the number of nominations that may be filed.

The said fee is required to be paid by way of a demand draft drawn in favour of Secretary, the Institute of Chartered Accountants of India, payable at New Delhi.

V. SAGAR, Returning Officer and Secy.
[ADVT.-III/4/Ext./212/18]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2018

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं. 54-ईएल(1)/6/2018.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 134 के उपविनियम (10) और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (परिषद् का निर्वाचन) नियम, 2006 के नियम 10 के साथ पठित उक्त विनियमों के विनियम 134 के उपविनियम (7) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ने यह विनिश्चय किया है कि दिसंबर, 2018 में आयोजित किए जाने वाले उसकी तेईसवीं प्रादेशिक परिषदों के निर्वाचनों के संबंध में निर्वाचन का कोई अभ्यर्थी अपनी उम्मीदवारी के लिए, फाइल किए जाने वाले नामांकनों की संख्या पर ध्यान न देते हुए कुल 12,500/- रुपए (बारह हजार पांच सौ रुपए) के शुल्क का संदाय करेगा।

उक्त शुल्क का संदाय, सचिव, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के पक्ष में और नई दिल्ली में संदेय एक मानदेय ड्राफ्ट द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

वी. सागर, रिटर्निंग अधिकारी और सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./212/18]

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2018

(Chartered Accountants)

No. 54-EL(1)/6/2018.—In exercise of the powers conferred by sub-regulation (7) of regulation 134 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 read with sub-regulation (10) of the said regulation and rule 10 of the Chartered Accountants (Election to the Council) Rules, 2006, the Institute of Chartered Accountants of India has decided that in respect of election to its Twenty Third Regional Councils to be held in December, 2018, a candidate for election shall pay in all a fee of Rs. 12,500/- (Rupees Twelve Thousand Five Hundred only) for his candidature, irrespective of the number of nominations that may be filed.

The said fee is required to be paid by way of a demand draft drawn in favour of Secretary, the Institute of Chartered Accountants of India, payable at New Delhi.

V. SAGAR, Returning Officer and Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./212/18]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2018

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं. 54-ईएल(1)/7/2018.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अधीन विनिर्दिष्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (परिषद् का निर्वाचन) नियम, 2006 के नियम 11 के उपनियम (1) के अनुसरण में, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान यह अधिसूचित करता है कि दिसंबर, 2018 में आयोजित किए जाने वाले उसकी चौबीसवीं परिषद् के निर्वाचनों के संबंध में, कोई अभ्यर्थी, फाइल किए जाने वाले नामांकनों की संख्या पर ध्यान न देते हुए अपनी उम्मीदवारी के लिए प्रतिभूति निक्षेप के रूप में 20,000/- रुपए (बीस हजार रुपए) की रकम का संदाय करेगा। यदि वह संबद्ध प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए ऐसे मूल मतों, जिसे उक्त नियमों के नियम 35 में परिभाषित किया गया है, के 2% (दो प्रतिशत) से अन्यून मत प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसके द्वारा संदत्त प्रतिभूति निक्षेप जब्त हो जाएगा।

उक्त निक्षेप का संदाय, सचिव, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के पक्ष में और नई दिल्ली में संदेय एक मानदेय ड्राफ्ट द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

वी. सागर, रिटर्निंग अधिकारी और सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./212/18]

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2018

(Chartered Accountants)

No. 54-EL(1)/7/2018.—In pursuance of sub-rule (1) of rule 11 of the Chartered Accountants (Election to the Council) Rules, 2006 specified under the Chartered Accountants Act, 1949, the Institute of Chartered Accountants of India hereby notifies that in respect of election to its Twenty Fourth Council to be held in December, 2018, a candidate shall pay an amount of Rs.20,000/- (Rupees Twenty Thousand only) as security deposit, for his candidature, irrespective of the number of nominations that may be filed. The security deposit so paid shall be forfeited, if he fails to secure not less than 2% (two per cent) of the original votes, as defined in rule 35 of the said Rules, polled in the concerned regional constituency.

The said deposit is required to be paid by way of a demand draft drawn in favour of Secretary, the Institute of Chartered Accountants of India, payable at New Delhi.

V SAGAR, Returning Officer and Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./212/18]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2018

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं. 54-ईएल(1)/8/2018.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 134 के उपविनियम (10) और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अधीन विनिर्दिष्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (परिषद् का निर्वाचन) नियम, 2006 के साथ पठित उक्त विनियमों के विनियम 134 के उपविनियम (7क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान यह अधिसूचित करता है कि दिसंबर, 2018 में आयोजित किए जाने वाले उसकी तेईसवीं प्रादेशिक परिषदों के निर्वाचनों के संबंध में, कोई अभ्यर्थी, फाइल किए जाने वाले नामांकनों की संख्या पर ध्यान न देते हुए अपनी उम्मीदवारी के लिए प्रतिभूति निक्षेप के रूप में 10,000/- रुपए (दस हजार रुपए) की रकम का संदाय करेगा। यदि वह संबद्ध प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए ऐसे मूल मतों, जिसे उक्त नियमों के नियम 35 में परिभाषित किया गया है, के 1% (एक प्रतिशत) से अन्यून मत प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसके द्वारा संदत्त प्रतिभूति निक्षेप जब्त हो जाएगा।

उक्त निक्षेप का संदाय, सचिव, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के पक्ष में और नई दिल्ली में संदेय एक मानदेय ड्राफ्ट द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

वी. सागर, रिटर्निंग अधिकारी और सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./212/18]

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2018

(Chartered Accountants)

No. 54-EL(1)/8/2018.—In pursuance of sub-regulation (7A) of regulation 134 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 read with sub-regulation (10) of the said regulation and the Chartered Accountants (Election to the Council) Rules, 2006 specified under the Chartered Accountants Act, 1949, the Institute of Chartered Accountants of India hereby notifies that in respect of election to the Twenty Third Regional Councils to be held in December, 2018, a candidate shall pay an amount of Rs.10,000/- (Rupees Ten Thousand only) as security deposit, for his candidature, irrespective of the number of nominations that may be filed. The security deposit so paid shall be forfeited if he fails to secure not less than 1% (One per cent) of the original votes, as defined in rule 35 of the said Rules, polled in the concerned Regional Constituency.

The said deposit is required to be paid by way of a demand draft drawn in favour of Secretary, the Institute of Chartered Accountants of India, payable at New Delhi.

V. SAGAR, Returning Officer and Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./212/18]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2018

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं. 54-ईएल(1)/10/2018.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 134 के उपविनियम (10) और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अधीन विनिर्दिष्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (परिषद् का निर्वाचन) नियम, 2006 की अनुसूची 6 के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 21 और 29 के अनुसरण में यह अधिसूचित किया जाता है कि 7 और 8 दिसंबर, 2018 के

दिनों को अहमदाबाद, बंगलूरु, चेन्नई, दिल्ली/नई दिल्ली, गुडगांव, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कोलकाता, मुंबई, पुणे, सूरत और ठाणे के लिए भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की चौबीसवीं परिषद् और तेईसवीं प्रादेशिक परिषदों के निर्वाचनों के लिए मतदान की तारीखों के रूप में नियत किया गया है। अन्य सभी स्थानों पर मत डालने के लिए 8 दिसंबर 2018 की तारीख नियत की गई है।

सभी मतदान केंद्र संबंधित तारीख (तारीखों) पर प्रातः 08:00 से रात्रि 08:00 तक खुले रहेंगे।

वी. सागर, रिटर्निंग अधिकारी और सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./212/18]

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2018

(Chartered Accountants)

No. 54-EL(1)/10/2018.—In pursuance of rules 21 and 29 of the Chartered Accountants (Election to the Council) Rules, 2006 specified under the Chartered Accountants Act, 1949 read with Schedule 6 thereof and sub-regulation (10) of regulation 134 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that 7th and 8th December, 2018 have been appointed as the dates for the recording of votes for elections to the Twenty Fourth Council and Twenty Third Regional Councils of the Institute of Chartered Accountants of India for Ahmedabad, Bengaluru, Chennai, Delhi/New Delhi, Gurgaon, Hyderabad, Indore, Jaipur, Kolkata, Mumbai, Pune, Surat and Thane. At all other places, 8th December, 2018 has been appointed as the date for recording of votes.

All polling booths will remain open from 8.00 a.m. to 8.00 p.m. on the respective date(s).

V. SAGAR, Returning Officer and Secy.
[ADVT.-III/4/Ext./212/18]